

Zec

Chapter 14

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 הַגֵּה יוֹם-בָּא לִיהוָה וְיָבֹא בְּקִרְבְּךָ : שְׁלֵלָה וְחָלַק וְיָבֹא בְּקִרְבְּךָ :
देखो, यही-दिन-आता-है के-लिए-यहोवा और-बाँटी-जाएगी तेरे-बीच-में तेरी-लूट
H2009 H3117 H0935 H3068 H7998 H7130

देखो, यहोवा निर्णय का विशेष दिन रखता है और जो धन तुमने लिया है वह तुम्हारे नगर में बँटगा।

2 וְאֶסְפְּרֶינָה אֶת-כָּל-הַגְּבוּלִים אֲלֵ-יְרוּשָׁלַם לְמַלְחָמָה וְנִלְכְּדָה הָעִיר
और-मैं-इकट्ठा-करूँगा और-सब-जातियों की-ओर-यरूशलेम के-लिए-युद्ध और-ली-जाएगी नगरी
H0622 H3605 H0413 H3389 H4421 H3920

וְנִשְׁפָּטוּ וְנִשְׁפָּטוּ וְהַנְּשִׂימַי וְהַבְּתָרִים וְהַנְּשִׂימַי
और-लूटे-जाएँगे और-घर और-स्त्रियाँ अपमानित-की-जाएँगी (अपमानित-की-जाएँगी) और-निकलेगा आधा नगरी-का
H8155 H0802 H7693 H7901 H3318 H2677

בְּנוֹלָה מִן-הָעִיר יִכָּרֵת לֹא-הָיוּ לֹא-הָיוּ לֹא-הָיוּ
में-बंधुआई और-बचे-हुए लोग नहीं काटे-जाएँगे नगरी से-
H1473 H3808 H3772

मैं सभी राष्ट्रों को यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने के लिये एक साथ लाऊँगा। वे नगर पर अधिकार करेंगे तथा घरों को नष्ट करेंगे। स्त्रियों के साथ कुकर्म होगा, और लोगों में से आधे बन्दी बनाए जाएँगे। किन्तु बाकी लोग नगर से नहीं ले जाएँगे।

3 וַיֵּצֵא יְהוָה וְנִלְחָם בְּגִבּוֹנֵם הָהֵם כְּיוֹם הַלְחָמוֹ בְּיוֹם קָרְבִּי :
और-निकलेगा और-लड़ेंगा और-जातियों में-जातियों उन जैसे-दिन उनके-लड़ने-के में-दिन युद्ध-के
H3318 H3068 H2192 H3117 H7128

तब यहोवा उन राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करेगा। यह एक सच्चा युद्ध होगा।

4 וְעָמְדוּ רְגָלָיו בְּיוֹם-הַהוּא עַל-הַר הַזֵּיתִים אֲשֶׁר עָלָיו פְּנֵי יְרוּשָׁלַם
और-खड़े-होंगे और-उसके-पाँव और-उसके-पाँव उस पर-पहाड़ के-जैतून-के जो पर-सामने यरूशलेम-के
H5975 H7272 H3117 H1931 H2022 H2132 H6440 H3389

מִקְדָּם מִקְדָּם וְנִבְקַע הַר הַזֵּיתִים מִחֲצִיּוֹ מִזְרָחָהּ מִזְרָחָהּ וְנִבְקַע
से-पूर्व और-फटेगा पहाड़ के-जैतून-का से-उसके-बीच पूर्व-की-ओर और-पश्चिम-की-ओर और-घाटी बड़ी बहुत
H1234 H2022 H2132 H2677 H4217 H3220 H1516 H3966

וּמִשְׁחָז חָצִי וְהָרָה צְפוֹנָה וְחֲצִי-וּמִשְׁחָז דְּקִיפָה :
और-हटेगा आधा पहाड़-का उत्तर-की-ओर और-आधा-उसका-दक्षिण-की-ओर
H4185 H2677 H2022 H6828 H5045

उस समय, वह जैतून के पर्वत पर खड़े होंगा। वह पहाड़ी जो यरूशलेम के पूर्व है। अंजीर का पर्वत फट पड़ेगा। पर्वत एक भाग उत्तर को जाएगा दूसरा भाग दक्षिण को। एक गहरी घाटी पूर्व से पश्चिम तक उभर आएगी।

5 וְנִסְתָּם גִּיאַת-הָרִי מֵעַתָּה וְנִסְתָּם גִּיאַת-הָרִי מֵעַתָּה
और-तुम-भागोगे और-तुम-भागोगे घाटी-मेरे-पहाड़ों-की घाटी-मेरे-पहाड़ों-की घाटी-मेरे-पहाड़ों-की घाटी-मेरे-पहाड़ों-की
H5127 H1516 H2022 H5060 H1516 H0413 H5127

כְּאֲשֶׁר נִסְתָּם מִפְּנֵי הָרֵעַשׁ בְּיָמָיו עֲזַיָּה מֶלֶךְ-יְהוּדָה וּבָא יְהוָה אֶל-הָרִי
जैसे तुम-भाग-थे से-सामने भूकंप-के में-दिनों उज्जियाह राजा-के यहुदा-के और-आएगा यहोवा मेरा-एलोहीम
H5127 H6440 H7494 H3117 H5818 H4428 H3063 H0935 H3068 H0430

כָּל-קְדָשִׁים עִמָּךָ :
सब-पवित्र-जन तेरे-साथ
H6918 H3605

जैसे—जैसे वह पर्वतीय घाटी तुम्हारे समीप आती जाएगी, तुम भाग जाना चाहोगे। तुम उसी समय की तरह भागोगे, जैसे तुम यहूदा के राजा उज्जिय्याह के समय में भुक्मप से भागे थे। किन्तु यहोवा, मेरा परमेश्वर आएगा और उनके सभी पवित्र लोग उनके साथ होंगे।

6
 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא לֹא-יְהִי אֹרֶךְ יְמֵי הַיְהוּדָה וְהָיָה אֶת-יְהוּדָה וְהָיָה אֶת-יְהוּדָה
 और-जमा-हुआ जमा-हुआ बहुमूल्य प्रकाश होगा नहीं- उस में-दिन और-होगा
[H3368](#) [H0216](#) [H1961](#) [H3808](#) [H1931](#) [H3117](#) [H1961](#)

वह एक बहुत अधिक विशेष दिन होगा। उस दिन प्रकाश, शीत और तुषार कुछ नहीं होगा। केवल यहोवा ही जानता हैं कि यह कैसे होगा, किन्तु कोई दिन—रात नहीं होंगे। तब जब सामान्य रूप से अंधेरा आएगा, तो उस समय उजाला भी होगा।

7
 וְהָיָה יוֹם-אֶחָד הַיּוֹם הַהוּא יִבָּרַע יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל וְהָיָה לְעֵת-עֶרֶב יְהוָה-אֹרֶךְ
 और-होगा रात और-नहीं- दिन नहीं- के-लिए-यहोवा जाना-जाएगा वह एक दिन- और-होगा
 प्रकाश होगा- शाम के-समय-
[H1961](#) [H3915](#) [H3808](#) [H3117](#) [H3808](#) [H3068](#) [H3045](#) [H1931](#) [H0259](#) [H3117](#) [H1961](#)
[H0216](#) [H1961](#) [H6153](#) [H6256](#)

वह एक बहुत अधिक विशेष दिन होगा। उस दिन प्रकाश, शीत और तुषार कुछ नहीं होगा। केवल यहोवा ही जानता हैं कि यह कैसे होगा, किन्तु कोई दिन—रात नहीं होंगे। तब जब सामान्य रूप से अंधेरा आएगा, तो उस समय उजाला भी होगा।

8
 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא יִצְאֹוּ מֵי-יַם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף
 और-होगा और-होगा पूर्व समुद्र की-ओर- आधा-उनका से-यरूशलेम जीवित पानी- निकलेंगे उस में-दिन और-होगा
 होगा और-में-जाड़ा में-गर्मी पश्चिमी समुद्र की-ओर- और-आधा-उनका
[H1961](#) [H3220](#) [H0413](#) [H2677](#) [H3389](#) [H4325](#) [H3318](#) [H1931](#) [H3117](#) [H1961](#)
[H1961](#) [H2779](#) [H7019](#) [H0314](#) [H3220](#) [H0413](#) [H2677](#)

उस समय, यरूशलेम से लगातार पानी बहेगा। वह धारा बट जाएगी और एक भाग पूर्व को बहेगा और एक भाग पश्चिम को भूमध्य सागर तक जाएगा और यह पूरे वर्ष ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में बहेगा

9
 וְהָיָה יוֹם-אֶחָד הַיּוֹם הַהוּא יִבָּרַע יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל וְהָיָה לְעֵת-עֶרֶב יְהוָה-אֹרֶךְ
 एक यहोवा होगा उस में-दिन पृथ्वी सारी- पर- के-लिए-राजा यहोवा और-होगा
 एक और-उसका-नाम
[H0259](#) [H3068](#) [H1961](#) [H1931](#) [H3117](#) [H0776](#) [H3605](#) [H4428](#) [H3068](#) [H1961](#)
[H0259](#) [H8034](#)

और यहोवा उस समय, पूरे संसार के राजा होगा। यहोवा एक है। उसका नाम एक है।

10
 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא יִצְאֹוּ מֵי-יַם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף
 और-उँची-होगी यरूशलेम-के दक्षिण-में तक-रिम्मोन से-गोबा जैसे-अराबा भूमि सारी- बदल-जाएगी
[H7213](#) [H3389](#) [H5045](#) [H1387](#) [H6160](#) [H0776](#) [H3605](#) [H5437](#)

11
 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא יִצְאֹוּ מֵי-יַם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף
 कोने-के फाटक तक- पहले-के फाटक जगह तक- बिन्यामीन-के से-फाटक में-अपनी-जगह और-बसी-रहेगी
 राजा-के कुण्डों तक हननएल-की और-मीनार
[H6434](#) [H8179](#) [H5704](#) [H7223](#) [H8179](#) [H4725](#) [H5704](#) [H1144](#) [H8179](#) [H8478](#) [H3427](#)
[H4428](#) [H3342](#) [H5704](#) [H2606](#) [H4026](#)

उस समय यरूशलेम के चारों ओर का क्षेत्र अराबा मरूभूमि की तरह सूना हो जाएगा। गेब से लेकर नेगब में रिम्मोन तक देश मरूभूमि सा हो जाएगा। किन्तु यरूशलेम का पूरा नगर फिर से, बिन्यामीन द्वार से प्रथम द्वार (अर्थात् कोने का द्वार) और हननेल की मीनार से राजा के दाखमधु निष्कासक तक बनेगा।

11
 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא יִצְאֹוּ מֵי-יַם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף וְהָיָה מִיַּם-סוּף
 में-सुरक्षा यरूशलेम और-बसी-रहेगी फिर होगा- नहीं और-शाप में-उसमें और-बसेंगे
[H0983](#) [H3389](#) [H3427](#) [H5750](#) [H1961](#) [H3808](#) [H3427](#)

प्रतिबन्ध उठ जाएगा और लोग वहाँ अपने घर बनायेंगे। यरूशलेम सुरक्षित होगा।

12 וְזָאת תְּהִינָה חֲמִשָּׁה אֲשֶׁר יִנָּק יְהוָה אֶת-כָּל-הָעַמִּים אֲשֶׁר לִבָּא עֲלֵי- 12
 और-यह होगी महामारी जिससे मारेगा यहोवा को-सब-लोगों जो लड़े-के-विरुद्ध-
[H2063](#) [H1961](#) [H4046](#) [H5062](#) [H3068](#) [H0853](#) [H3605](#) [H6633](#)

וְרוּשָׁלַם יִהְיֶה סֶדֶק וְהוּא עָמַד עַל-רַגְלָיו וְעֵינָיו תִּמְקְנָה בְּחַרְיָתָן 12
 यरूशलेम सड़ेगा और-वे और-वे खड़े-होंगे पर-अपने-पाँवों और-उनकी-आँखें सड़ेगी में-अपने-गद्दों
[H3389](#) [H4743](#) [H1320](#) [H1931](#) [H5975](#) [H7272](#) [H4743](#) [H2356](#) [H4743](#)

וְלִשְׁנוֹ תִּמְקְנָה בְּפִיהֶם: 12
 और-उनकी-जीभ सड़ेगी में-उनके-मुँह
[H3956](#) [H4743](#) [H6310](#)

किन्तु यहोवा उन राष्ट्रों को दण्ड देगा जो यरूशलेम के विरुद्ध लड़े। वह उन्हें भयंकर बीमारी लगा देगा। खड़े खड़े उनका शरीर गल जयेगा। उनकी आँखें उनके कोटर में गलेंगी। तथा उनकी जीभ उनके मुखों में गलेगी।

13 וְהָיָה בֵּינוֹם תְּהִינָה חֲלוּאָה מְהוּמָת-יְהוָה רַבָּה בָּהֶם וְהַחַיִּיקוּ אִישׁ יָד 13
 और-होगा और-दिन उस होगी हलचल-यहोवा-की बड़ी में-उनमें और-पकड़ेंगे हाथ मनुष्य हाथ
[H1961](#) [H3117](#) [H1931](#) [H4103](#) [H3068](#) [H2388](#) [H0376](#) [H3027](#)

וְעָלְתָּה יָדוֹ וְעָלְתָּה יָדוֹ 13
 और-उठेगा उसका-हाथ पर-अपने-साथी-के हाथ
[H5927](#) [H3027](#) [H7453](#) [H3027](#) [H7453](#)

वह भयंकर बीमारी शत्रुओं के डेरे में होगा और उनके घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों और गधों को वह भयंकर बीमारी लग जाएगी। उस समय वे लोग, सचमुच, यहोवा से डरेंगे। वे एक दुसरे का गला दबायेंगे। वे एक दुसरे पर प्रहार करने के लिये हाथ उठाएंगे। यहूदा के लोग यरूशलेम में युद्ध करेंगे, किन्तु वे नगर के चारों ओर के राष्ट्रों से धन प्राप्त करेंगे। वे बहुत अधिक सोना, चाँदी, और वस्त्र प्राप्त करेंगे।

14 וְגַם-יְהוּדָה תִּלָּחֵם בִּירוּשָׁלַם וְגַם-יְהוּדָה תִּלָּחֵם 14
 और-भी-यहूदा लड़ेगा और-यरूशलेम में-यरूशलेम और-इकट्ठी-की-जाएगी सम्पत्ति सब-जातियों-की चारों-ओर-से सौना
[H1571](#) [H3063](#) [H3389](#) [H0622](#) [H2428](#) [H3605](#) [H5439](#) [H2091](#)

וְכַסְּףָּ וּבִגְדֵיהֶם לְרַב מְאֹד: 14
 और-चाँदी और-वस्त्र और-बहुतायत बहुत
[H3701](#) [H7230](#) [H3966](#)

वह भयंकर बीमारी शत्रुओं के डेरे में होगा और उनके घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों और गधों को वह भयंकर बीमारी लग जाएगी। उस समय वे लोग, सचमुच, यहोवा से डरेंगे। वे एक दुसरे का गला दबायेंगे। वे एक दुसरे पर प्रहार करने के लिये हाथ उठाएंगे। यहूदा के लोग यरूशलेम में युद्ध करेंगे, किन्तु वे नगर के चारों ओर के राष्ट्रों से धन प्राप्त करेंगे। वे बहुत अधिक सोना, चाँदी, और वस्त्र प्राप्त करेंगे।

15 וְכָל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִיא 15
 और-सब-पशुओं-की और-गधे-की ऊँट-की खच्चर-की घड़े-की महामारी होगी और-ऐसी जो
[H3605](#) [H2543](#) [H1581](#) [H6505](#) [H1961](#) [H0929](#) [H1961](#)

בְּמַחְנֵוֹת בְּמַחְנֵוֹת תִּהְיֶה כְּמַגֵּפָה 15
 में-छावनियों में-छावनियों उन जैसी-महामारी यह
[H4264](#) [H1992](#) [H4046](#) [H2063](#)

वह भयंकर बीमारी शत्रुओं के डेरे में होगा और उनके घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों और गधों को वह भयंकर बीमारी लग जाएगी। उस समय वे लोग, सचमुच, यहोवा से डरेंगे। वे एक दुसरे का गला दबायेंगे। वे एक दुसरे पर प्रहार करने के लिये हाथ उठाएंगे। यहूदा के लोग यरूशलेम में युद्ध करेंगे, किन्तु वे नगर के चारों ओर के राष्ट्रों से धन प्राप्त करेंगे। वे बहुत अधिक सोना, चाँदी, और वस्त्र प्राप्त करेंगे।

16 וְהָיָה כָּל-הַנּוֹתָר מִכָּל-הַגּוֹיִם 16
 और-होगा सब-बचे-हुए और-होगा जो-आई-थी जातियों के-विरुद्ध-के-सब-से-सब-मारे-हुए
[H1961](#) [H3605](#) [H3498](#) [H0935](#) [H3389](#) [H5927](#) [H1767](#) [H8141](#)

בְּשָׁנָה לְהַשְׁתַּחֲוֹת לְמַלְכָּו 16
 में-वर्ष के-लिए-दण्डवत-करने को-राजा को-मनाने और-मनाने सेनाओं-के को-पर्व को-
[H8141](#) [H7812](#) [H4428](#) [H3068](#) [H2287](#) [H0853](#) [H2282](#) [H5521](#)

कुछ लोग जो यरूशलेम में युद्ध करने आएंगे। वे बच जाएंगे और हर वर्ष वे राजा, सर्वशक्तिमान यहोवा की उपासना को आएंगे। वे झोंपड़ीयों का पर्व मनाने आएंगे।

17 וְהָיָה אֲשֶׁר לֹא- יַעֲלֶה מֵאֵת מִשְׁפַּחַת הָאָרֶץ אֶל- יְרוּשָׁלַם לְהִשְׁתַּחֲוֹת 17
 और-होगा जो नहीं- चढ़ेगा से- कुलों-में-से पृथ्वी-के को- यरूशलेम के-लिए-दण्डवत-करने
[H1961](#) [H3808](#) [H5927](#) [H0854](#) [H4940](#) [H0776](#) [H0413](#) [H3389](#) [H7812](#)

וְהָיָה אֲשֶׁר לֹא- יַעֲלֶה מֵאֵת מִשְׁפַּחַת הָאָרֶץ אֶל- יְרוּשָׁלַם לְהִשְׁתַּחֲוֹת
 और-होगा जो नहीं- चढ़ेगा से- कुलों-में-से पृथ्वी-के को- यरूशलेम के-लिए-दण्डवत-करने
[H1653](#) [H1961](#) [H3808](#) [H1653](#)

औक यदि पृथ्वी के किसी परिवार के लाग राजा, सर्वशक्तिमान यहोवा की उपासना करने यरूशलेम नहीं जाएंगे तो यहोवा उन्हें वर्षा से वंचित कर देगा।

18 וְאִם- מִשְׁפַּחַת מִצְרַיִם לֹא- תַעֲלֶה וְלֹא בָּאָה וְלֹא עָלִיָּהּ תִּהְיֶה הַמִּגְדָּה 18
 और-यदि- कुल मिस्र-का नहीं- चढ़े और-नहीं आए और-नहीं पर-उन वर्षा
[H4940](#) [H4714](#) [H3808](#) [H5927](#) [H3808](#) [H0935](#) [H3808](#) [H1961](#) [H4046](#)

וְאִם- מִשְׁפַּחַת מִצְרַיִם לֹא- תַעֲלֶה וְלֹא בָּאָה וְלֹא עָלִיָּהּ תִּהְיֶה הַמִּגְדָּה
 और-यदि- कुल मिस्र-का नहीं- चढ़े और-नहीं आए और-नहीं पर-उन वर्षा
[H5521](#) [H2282](#) [H0853](#) [H2287](#) [H5927](#) [H3808](#) [H0853](#) [H3068](#) [H5062](#)

यदि मिस्र का कोई परिवार बटोरने का पर्व मनाने नहीं आएगा, ता उसे वही भयंकर बीमारी होगी, जो यहोवा ने अन्य शत्रु राष्ट्रों को लगा दी थी।

19 וְזֹאת תִּהְיֶה חַטָּאת מִצְרַיִם וְחַטָּאת כָּל- הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יַעֲלֶה לְחַג מְנַנֵּה אֶת- 19
 यह होगा पाप मिस्र-का और-पाप सब- जातियों-का जो नहीं- चढ़ेगी मनाने को-
[H2063](#) [H1961](#) [H4714](#) [H3605](#) [H5927](#) [H3808](#) [H0853](#)

וְזֹאת תִּהְיֶה חַטָּאת מִצְרַיִם וְחַטָּאת כָּל- הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יַעֲלֶה לְחַג מְנַנֵּה אֶת-
 यह होगा पाप मिस्र-का और-पाप सब- जातियों-का जो नहीं- चढ़ेगी मनाने को-
[H5521](#) [H2282](#)

वह मिस्र के लिये तथा किसी भी राष्ट्र के लिये दण्ड होगा, जो बटोरने का पर्व मनाने नहीं आएगा।

20 בְּיָמָיו תִּהְיֶה הַהֲוֵא עַל- מַצְלֹת הַסּוֹס וְקִדְשׁ לְיְהוָה וְהָיָה הַסְּרִוֹת בְּבֵית- 20
 में-दिन में-दिन उस होगा पर- घंटियों की-घोड़ों-की पवित्र के-लिए-यहोवा और-होंगे और-भवन में-
[H3117](#) [H1931](#) [H1961](#) [H4698](#) [H6944](#) [H3068](#) [H1961](#)

בְּיָמָיו תִּהְיֶה הַהֲוֵא עַל- מַצְלֹת הַסּוֹס וְקִדְשׁ לְיְהוָה וְהָיָה הַסְּרִוֹת בְּבֵית-
 में-दिन में-दिन उस होगा पर- घंटियों की-घोड़ों-की पवित्र के-लिए-यहोवा और-होंगे और-भवन में-
[H4196](#) [H6440](#) [H4219](#) [H3068](#)

उस समय, हर एक चीज परमेश्वर का होगा। यहाँ तक कि घोड़े के कक्षबन्ध पर भी यहोवा का पवित्र नामक सूचक होगा और यहोवा के मंदिर उपयोग में आने वाली सभी बर्तन वैसे ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे वेदी पर उपयोग में आने वाला प्याला।

21 וְהָיָה כָּל- סִיר בִּירוּשָׁלַם וּבִיהוּדָה וְקִדְשׁ לְיְהוָה זְבָאוֹת וּבָאוּ כָּל- 21
 और-होगा हर- बर्तन में-यरूशलेम में-यहूदा और-में-यहूदा पवित्र के-लिए-यहोवा सेनाओं-के और-आएँगे सब-
[H1961](#) [H3605](#) [H3389](#) [H3063](#) [H6944](#) [H3068](#) [H0935](#) [H3605](#)

וְהָיָה כָּל- סִיר בִּירוּשָׁלַם וּבִיהוּדָה וְקִדְשׁ לְיְהוָה זְבָאוֹת וּבָאוּ כָּל-
 और-होगा हर- बर्तन में-यरूशलेम में-यहूदा और-में-यहूदा पवित्र के-लिए-यहोवा सेनाओं-के और-आएँगे सब-
[H3068](#) [H5750](#) [H1961](#) [H3808](#) [H1310](#) [H1992](#) [H3947](#) [H2076](#)

וְהָיָה כָּל- סִיר בִּירוּשָׁלַם וּבִיהוּדָה וְקִדְשׁ לְיְהוָה זְבָאוֹת וּבָאוּ כָּל-
 और-होगा हर- बर्तन में-यरूशलेम में-यहूदा और-में-यहूदा पवित्र के-लिए-यहोवा सेनाओं-के और-आएँगे सब-
[H1931](#) [H3117](#)

वस्तुतः, यहूदा और यरूशलेम की हर एक तशतरी पर सर्वशक्तिमान यहोवा को पवित्र नामक सूचक होगा। और हर एक व्यक्ति जो यहोवा की उपासना करेगा, उन तशतरियों में भोजन पकाने और भोजन करने का अधिकारी होगा। और उस समय, सर्वशक्तिमान यहोवा के मंदिर में वस्तुएं क्रय—विक्रय करने वाला कोई व्यापारी नहीं होगा।